

CIN: L74110HP2004LC027558

**September 07, 2023** 

To

The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532771

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G
Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400051
Trading Symbol: JHS

<u>Subject: Submission of Copies of Newspaper Advertisement for Notice of 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company confirming completion of dispatch of the Notice.</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in the Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on September 07, 2023, confirming dispatch of Notice of 19th Annual General Meeting (AGM) to be held on September 28, 2023, e-voting information in respect of Resolutions contained therein and Annual Report for Financial Year 2022-23.

Furthermore, these publications are also uploaded on the website of the company viz.http://www.svendgaard.com

This is for your kind information and record. Kindly acknowledge the receipt.

Thanking You, For JHS Svendgaard Laboratories Limited

Komal Jha
Company Secretary & Compliance officer

Encl: A/a



Authorised Officer, Indian Banl

Bilaspur (C.G.)

JHS Svendgaard Laboratories Limited Corporate Identity Number: L74110HP2004PLC027558

Regd. Office: Trilokpur Road, Kheri Kala -Amb, Tehsil - Nahai Distt: Sirmaur, Himachal Pradesh
Ph. No.: 011-26900431 and Fax No. 01702-238830 Website: www.svendgaard.com • email: cs@svendgaard.com

NOTICE OF 19™ ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of JHS Svendgaar Laboratories Limited (Company) will be held on **Thursday, 28<sup>th</sup> September 2023 at 02:00 P.M.** througl ideo conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules ramed read with various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and exchange Board of India ("SEBI").

lectronic dispatch of the copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended or 1<sup>st</sup> March, 2023 have been completed on 05<sup>st</sup> September, 2023 to all the members, as on 25<sup>st</sup> August 023, whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company <a href="https://www.svendgaard.com">www.svendgaard.com</a> and

on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on website of the Registrar & Transfer Agent of the companyAlankfussignments Limited : https://www.alankfu.com/registrar-and-share-transfer-agent. The documents referred in Notice of AGM or Annual Report shall be available electronically for inspection

members upon request to the Company, by emailing at cs@svendgaard.com. Remote E-voting & E-voting at AGM

The facility of casting the votes by the members at AGM ("e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Monday, 25<sup>th</sup> September 2023 (09:00 A.M.) and ends on Wednesday, 27° September, 2023 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21' September, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and a persor tho is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only. Members

articipating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending o
the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the
login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NDSL for a-voting, existing user ID and password can be used for casting vote;

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the NDSL after the

aforesaid date and lime for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM:

embers, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are no Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by submitting form ISR-1 (available on the website of company. https://www.svendgaard.com/) with supporting documents to the company. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for Members available on the website <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> under the Downloads Section'. You can also contact NSDL on toil free number 1800-1020-990 and 1800 22 44 30 rd. S. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in, who will dress the grievances related to electronic voting.

By Order of the Board of Director

Date: 06.09.2023

Komal Jha Company Secretar

## ARIHANT FOUNDATIONS & HOUSING LTD.

CIN: L70101TN1992PLC022299 Regd Office: No.3, Ganapathy Colony, 3rd Street, Off. Cenotaph Road,

Teynampet, Chennai-18. Telephone Number: 044-42244444

## **NOTICE TO MEMBERS**

Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, the 20" September 2023 through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business in the Notice of AGM, sent to the members by Email. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), The Genera Circulars, Circular No.10/2022 dated December 28, 2022, read with Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020,17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28,2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021

dated January 13, 2021, 10/2021 dated June 23, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and dated January 13, 2021, 10/2021 dated June 23, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and all other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 22" December 2021 and 13" May 2022 ('SEBI Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") Companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the company is also being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 has been sent to the shareholders whose email address are registered with the company / Depositary Participant(s) (DP) in permitted mode on 07.09.2023. The requirement of sending physical copy of the Notice of the 30° AGM and the Annual report to the members have been dispensed with the above circulars. Shareholders holding shares in Dematerialized form are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositary through their depository participants. Shareholder holding shares in Physical form are requested to furnish their email address and mobile number by clicking the https://investors.cameoindia.com with the company registrar and Share Fransfer Agent , Cameo corporate Services Limited or email to investors@cameoindia.com.

The Members are further informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 the Company is providing its member remote e voting facility company is providing the facility of voting through an evoting platform provided by CDSL during the AGM. Detailed procedure of remote evoting is provided in the Notice of AGM.

Members are informed that

- $\bullet\,$  The cutoff date for the purpose of remote e voting for the AGM is 25.09.2023. Remote e voting shall commence on 26.09.2023 at 9:00 AM and shall end on 28.09.2023 a 5:00 PM, after which e voting shall be disabled by CDSL
- The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e., 25.09.2023, may obtain the Notice of the meeting containing the detailed procedure of e-voting and the details of User Id and Password by sending a request at investors@arihants.co.in. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e voting then he/she can use his/her existing user ID and

The Board has appointed Mr.Abbavaram Kumar Reddy, Practicing Company Secretary Chennai as a scrutinizer for remote e voting and e voting at AGM. The notice of the 30th AGM, and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be made

available on the company's website at www.arihantspaces.com, stock exchange CDSL website www.evotingindia.com.

In case of any queries relating to e voting, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e voting manual available at www.evotingindia.com under help section or email to helpdesk@evoting@cdslindia.com In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may contact at the following address Mr. Murali, M/s. Cameo Corporate Services Limited Registrar & Share Transfer Agents manian Building, No.1 Club House Road, Anna Salai, Chennai – 600 002 Ph : 28460390 e-mail: investors@arihants.co.in.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable rules and Regulation 42 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015 the register of members and Share Transfer books of the company will remain closed from 25.09.2023 to 29.09.2023 (Both days inclusive) for the annual closing and 30th AGM.

> By order of the Board of Directors For Arihant Foundations & Housing Limited

Place: Chennai Date: 07.09.2023 (Kamal Lunawath) anaging Director DIN: 00087324

## PUBLIC NOTICE

We, Sumit Mittal and Deepak Mittal, R/O D-216 DLF Capita Greens, Shivaji Marg, Delhi-15 have lost the following Documents relating our property: F-113, DLF Capital Greens, Shivaji Marg, Delhi-15: Original Allotment Letter Apartment Buyers Agreement possession letter. If found Please contact: Sumit - 7042997585 or DLF Home Developers Limited Connaught place Delhi- 110001 ir next 10 ďays.

FILIE GAS DESUI PHI IRTZATION (EGD) SYSTEM PACKAGE FOR RGTPP HISA

FLUE GAS DESULPHURIZATION (FGD) SYSTEM PACKAGE FOR DORTE

HPGCI

hereas, the undersigned being the Authorized officer of the **State Bank of India** undection 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 issued a demand notice dated 15.03.2023 calling upon th Borrower/ Proprietor/Guarantor:- (1) M/s National Tent House Prop.Sh. Jeevraj Singh (2 Sorrower Proprietor/Guarantor:- (1) M/s National rent House Prop. Sn. Jeevraj Singh (2) Sh. Jeevraj Singh (3) Sh. Pratap Singh S/o Sh. Ratap Singh S/o Sh. Kalu Ram, Add. Gram-Kurli, Post-Dikawa, Distt.:-Nagaur-341303, for an amount of Rs.6,24,233/- (Rupee Six Lac Twenty Four Thousand Two Hundred Thirty Three Only) as on 09.03.2023 and the repay further Interest and Expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the sai notice. The Borrower having failed to repay the entire amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the propert described begin below subherted to Sequeth Lettered (Enforcement) Act 2002 conferred to described herein below subjected to Security Interest (Enforcement) Act.2002 conferred of this section 13 (4) and Rule 8 (1) of the said Act on this dated **01.09.2023** and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property with the charge of the **State Bank of India** for an amount of **Rs.4,67,349/-** (**Rs. Fou** Lac Sixty Seven Thousand Three Hundred Forty Nine Only) as on 31.08.2023 and interest and expenses thereon. Your Attention is invited under section 13 (8) of said Act 2002 According to that if all dues with cost, Charges and expenses be paid to Bank before the date of publication of sale notice then secured assets can be redeemed. Be informed after publication of sale notice there will be no right to redeem the secure assets.

Appendix IV [See Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY Residential House Situated at Patta No.2, Kurli, having admeasuring 166.66 Sq. Yars in th name of Sh. Pratap Singh S/o Sh. Kalu Singh. Bounded by: East: Rasta and Own Land, West Ishwar Singh S/o Sh. Onad Singh, North: House of Banne Singh, South: Sh. Karan Singh S/o

DDAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL

9354782005

xenplg3.pkl@hpgcl.org.in

9354782005

No.:-13/2024/40/20859/I/5/4

Date: 01.09.2023, Place: Nagaur (Authorized Officer) State Bank of India



Rule 8(1) Possession Notice (For Immovable Property)

Whereas The undersigned being the authorized officer of the **Indian Bank** under the Securitizatio and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002

and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Securit and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with time of and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 09.06.2022 calling upon (1) M/s Ali Fruit Company (Borrower) Prop., (2) Mr. Ajmal Ali S/o Mr. Saadat Ali (Borrower, Guarantor & Mortgagor), (3) Mrs. Shahida Ali W/o Mr. Ajmal Ali (Guarantor & Mortgagor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.25,63,054/- (As on 02.02.2023 and Interest

Included till 01.02.2023) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein

pelow in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule

below in exercise or powers comerted on thin under section 13(4) of the said Act read with the Band 9 of the said rules, on this **04th day of September of the year 2023.** The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for

Rs. 25,63,054/- (As on 02.02.2023 and Interest included till 01.02.2023) and interest along with charges & legal expenses thereon. "We draw attention to the provisions of subsection (8) of the SARFAESI Act and the rules framed there under which deals with your rights

Description of the Immovable Property

Residential property Land & Building situated at House No. 5, Phool Bagh Road, Behind Jama Masjid, Mohalla Baheer, District Tonk, admeasuring 253.55 Sq Yard (As per Bank

Records) in the name of Mr. Ajmal Ali S/o Mr. Saadat Ali & Mrs. Shahida Ali W/o Sh. Ajmal Ali, Bounded as under: North - Road, South -Nemi Harijan, East -Road, West -Gadristhan

Registration System' (e-Registration) with Chhattisgarh P.W.D. having "A" class Electrical License issued by Chhattisgarh Govt. registered on UADD website https://eproc.cgstate.gov.in on behalf of the Bilaspur Municipal Corporation for following works in S.O.R. issued by Engineer In Chief PWD Electrical work SOR 01/06/2020. Probable Amount Online Tende Name of works of Contract ender No (in Lakhs) Due Date

Supply and Installation of LED Stree Light Pole and fitting from Mopka Chowle 21/09/2023 146699 to Chilhati Chowk Sipat Road. The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of

Chhattisgarh e-Procurement Portal https://eproc.cgstate.gov.in from 06/09/2023 at 17:31 Hours. (IST) onwards. **Executive Engineer** Municipal Corporation

Green City, Clean City, Dream City.

www.hpgcl.org.in

## HI-TECH PIPES LIMITED Regd. Office: No. 505, Pearls Omaxe tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

03.10.2023

14.00.2023

 $FOR\ FURTHER\ INFORMATION\ KINDLY\ VISIT: www.haryanaeprocurement.go\underline{v.in}\ or\ www.etenders.hry.nic.in$ 

10 CRORE

CIN: L27202DL1985PLC019750, Email: info@hitechpipes.in, Website: www.hitechpipes.in NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

HI-TOCH

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Friday, 29th day of September, 2023 at 12:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of 39th AGM. The venue of the meeting shall deemed to be the Registered Office of the Company

at 505, Pearls Omaxe Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in furtherance of Go Green Initiative of Govt., the Company has e-mailed the Notice of the 39th AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 on Wednesday, 06th September, 2023 through electronic mode only, to those member whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent or Depositor Participant.

The requirement of sending physical copies of the Notice of AGM and Annual Report has been dispensed vides aforesaid circulars.

The Annual Report for the FY 2022-23 and the Notice of the 39th AGM has also been available on the website of the Company www.hitechpipes.in and on the website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') (www.evoting.nsdl.com)

The Final Dividend of Rs. 0.025/- per equity share for the F.Y. 2022-23, was recommended by the Board of Directors in their meeting held on May 27, 2023 for the approval by Shareholders at 39th AGM. The Board has fixed September 22, 2023 as "Record Date" for determining entitlement of the members to final dividend for FY 2022-23. The Dividend, if declared at the 39th Annual General Meeting, will be paid within 30 days from the date of AGM i.e. September 29, 2023, to the Members who have updated their bank account details with the Depositories in case of shares held in Demat mode and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case shares are held in physical mode. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheque will be sent to the registered addresses by permitted mode.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

In compliance to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time the Company is providing the members the facility to exercise their right to vote at the 39th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the businesse to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has availed the e-voting services of National Securities Depository Limited (NSDL).

The detailed instructions for the e-voting are given in the Notice of the AGM, Members are requested to note the following:

The Remote e-voting shall be commencing on Tuesday, 26th September, 2023 at 9:00 a.m. and shall end on Thursday, 28th September, 2023 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL for the voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the

The voting rights of the Members (for remote e-voting or voting during the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the company as on Friday, 22nd September, 2023 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained with by the Depository as on the Cut-Off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting during the AGM.

Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off date i.e. Friday, 22nd September, 2023 may obtained the login Id and password by following the procedure given in the Notice of the AGM. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting can use existing User ID and password for casting the votes during through remote e-voting/e-voting during the AGM

Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the proceeding of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM by following the procedure given in the Notice of the AGM.

Members who have already casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s).

For any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs" for Shareholders and e-voting manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Pallavi Mhatre, Senio Manager at evoting@nsdl.co.in

The Board has appointed M/s. NSP & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and the voting during the AGM, in the fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer Report, shall be placed on the Company's website www.hitechpipes.in and will be communicated to the Stock Exchanges and be available on their websites www.nseindia.com and www.bseindia.com

Transfer of Unclaimed/Unpaid Dividend to Investor Education Protection Fund (IEPF): Members are requested to note that, dividends if not encashed for a period of 7 years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect of such unclaimed dividends for 7 consecutive years are also liable to be transferred to the Demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members/Claimants are requested to claim their unpaid/unclaimed dividends from FY 2015-16 till date, on or before October 30, 2023. For details, please refer to the Shareholde Information investor page on the Company's website www.hitechpipes.in

> By Order of the Board For Hi-Tech Pipes Limited Arun Kumar

**IDBI** BANK

Place: New Delhi Date: 06.09.2023 **Company Secretary** 

### **BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED** CORPORATE OFFICE: CEREBRUM IT PARK B2 BUILDING, 5TH FLOOR, KALYANI NAGAR, PUNE, MAHARASHTRA - 411014

BRANCH OFFICE:- 3rd Floor, Landmark Tower, Opp. Jai Club, C-Scheme, Jaipur(Raj.), 302001
Authorized Officer's Details: Name: Pardeep Kumar, Email ID: pardeep.kumar1@bajajfinserv.in
Mob No. 9034740761/9212750217 /8669189048 /9560366367

of redemption over the securities'

Date: 04.09.2023, Place: Tonk

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT 2002 ('Act') Notice is hereby given to the public in general that the below mentioned Borrower/co-borrower mortgaged the immovable propert

which is described hereunder to Bajaj Housing Finance Limited ('BHFL') and the possession of the said immovable property ('securec asset/property') has been taken over by the Authorized Officer in accordance of the SARFAESI Act 2002 and rules there to. The secured asset will be sold through public auction by bidding for realization of the loan dues, applicable interest, charges and costs etc., payable to BHFL as detailed below. The secured asset is being sold on 10 Oct 2023 and the bidding will be held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS". "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" under the rule number 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) and on the terms and conditions specified here-under: BORROWER/S & GUARANTOR/S 1.DATE & TIME OF E-AUCTION

NAME & ADDRESS

AKASH SODHANI (Borrower) **HEMANT KUMAR SODHANI** (Through Legal Heirs since deceased)(Co Borrower) **Both At :-** 73 Ram Nagar , Shopping Center ,shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan-302016 **Also** At Unit No 103 (Backside Flat ) ,ground Floor, Plot No 136, Ganesh Nagar Scheme

village Balrampura, Urf Khejdo Ka Bass Sanganer, Jaipur-302020 Total Outstanding: Rs. 2682816- Twenty Six Lacs Eighty Two thousand Eight Hundred Sixteen Only Along with future interest and charges accrued w.e.f 31/08/2023

2.LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD 3.DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION 1) E-AUCTION DATE :- 10/10/23 BETWEEN 11:00 AM TO 12:00 PM WITH

**UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES** 

2.) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC IS :- 09/10/2023 UP TO 5:00P.M. (IST.) 3.) DATE OF INSPECTION: :- 06/09/2023

to 05/10/23 BETWEEN 11:00 AM TO 4:00 PM (IST)

1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY 3. BID INCREMENT

Reserve Price: Rs. 20,00,000 Twenty Lacs Only)
EMD: Rs. 2,00,000/- (Two Lacs
Only) 10% of Reserve Price. BID INCREMENT-RS.25,000/-(RUPEES TWENTY FIVE HOUSAND ONLY) & IN SUCH MULTIPLES.

Description Of The Immovable Property: Unit No 103 Having Built Up Area Of 940 Sqft (backside Flat ) Ground Floor Plot No 136 Ganesh Nagar Scheme Village Balrampura Urf Khejdo Ka Basstehsil Sanganer Jaipur-302020 East : Plot No 125 ,west : Road ,north : Plot No 135, South Plot No 137

Terms and Conditions of the Public Auction are as under:

- Public Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" and is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Bajaj Housing Finance Limited.

- The Secured asset will not be sold below the Reserve price.

The Auction Schwidth Secured asset will not be sold below the Wiserve price.

The Auction Sale will be online through e-auction portal.

The e-Auction will take place through portal https://bankauctions.in, on 10th October, 2023 from 11:00 AM to 12:00 PM to onwards with unlimited auto extension of 5

minutes each.
To the best of the knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the properties. However, it is necessary that the intending bidders should make their own independent inquiries regarding any claims, charges, dues, encumbrances and should satisfy about the title, extent/measurement of the property prior to submitting their bid. For any discrepancy in the property the participating bidder is solely responsible for all future recourses from the date of submission of bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put up for sale, charges/encumbrances over the property or on any other matter etc. will be entertained after

The Authorized Officer/BHFL will not be responsible for any charge, lien, encumbrance, property tax dues, electricity dues etc. or any other dues to the Government, loca authority or anybody, in respect of the property undersale.

The Public Auction notice/advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any offer, commitment or any representation of Bajaj Housing Finance Limited. The Authorized Officer/BHFL shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/dues.

The Sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESIAct 2002 and rules thereto.

It shall be the responsibility of the bidders to inspect (a) the title and link documents and (b) the property and satisfy themselves about the secured asset and specification before submitting the bid. Before entering the premises for inspection, it is necessary that the interested purchaser shall provide their identity, address and contact details in the register confirming their entry and exit from property under their signature.

The interested bidders shall submit their bid along with proof of having deposited the EMD through Web Portal: https://bankauctions.in (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://bankauctions.in through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT/RTGS in the following Account: "BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED" ACCOUNT NO. 57500000119623 AND IFSC CODE-HDFC0000007, before 5:00 PM on 09-october-2023 (Date & Time). Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount. After Registration (One Time) by the bidder in the Web Portal, the intending bidder/ purchaser is required to get the copies of the following documents uploaded in the Web Portal before the Last Date & Time of submission of the Bid Documents viz. i) Copy of the NEFT/RTGS Challan (ii) Copy of PAN Card; iii) Proof of Identification/ Address Proof (KYC); without which the Bid is liable to be rejected. UPLOADING SCANNED COPY OF NET I/R IGS Challain (ii) Copy of PAN Card; iii) Proof of dentification? Address Proof (NYC), without which the big is liable to be rejected. UPLOADING SCANNED COPY of ANNEXURE-II & III (can be downloaded from the Web Portal: https://bankauctions.in AFTER DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO REQUIRED The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact M/s. 4CLOSURE,#605A,6THFloor

Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad, Telangana-500038, prakash@bankauctions.in or Mr. Jaya Prakash Contact No. 8142000066/62 and for any proper query may contact the respective Branches / Authorized Officer on the telephone Nos mentioned against their name. The Bids along with other documents must be to the Authorized Officer in a sealed envelope mentioning "Offer for Purchase- 1.AKASH SODHANI , 2. HEMANT KUMAR SODHANI (Through Legal Heirs since deceased) LAN: -H419HLD0422862 and H419HLT0436890, to reach the Authorized Officer on or before the last date of submission of the Bids.
- During the Online Inter-se Bidding, Bidder can improve their Bid Amount as per the 'Bid Increase Amount' (mentioned above) or its multiple and in case bid is placed during the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (each time till the closure of e-Auction process), otherwise it'll automatically get closed. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on the closure of the eAuction Process shall be declared as a

to additional analysis of the control of the contro The interested bidder has to submit their Bid Documents specified against each property (EMD (not below the 10% of Reserve Price) and required documents (mentioned in

Point No.5]) on or before 09-oct-2023 UPTO 5:00 PM, after going through the Registering Process (One time) and generating User ID & Password of their own, shall be eligible for participating in the e-Auction Process, subject to due verification (of the documents) and/or approval of the Authorized Officer.

The successful Bidder must deposit the 25% of the purchase amount (after adjusting the EMD already paid) immediately upon the acceptance of the offer and declaration of the successful bidder by the Authorized officer, failing which the EMD paid shall be forfeited and cannot be claimed by the bidder from Bajaj Housing Finance Limited.

During the Online Inter-se Bidding, Bidder can improve their Bid Amount as per the 'Bid Increase Amount' (mentioned above) or its multiple and in case bid is placed during the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (each time till the closure of e-Auction process), otherwise, it'll automatically get closed. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on the closure of the eAuction Process shall be declared as a Successful Bidder by the Authorized Officer/ Secured Creditor, after required verification.

The balance 75% of the purchase amount must be deposited by the successful bidder within 15 days, failing which the amounts already deposited by the bidder shall stand automatically forfeited without further notice and no request for refunds whatsoever shall be entertained. Further, the property will be put to re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of the property/amount and will not be eligible to participate in the re-auction, if any. No interest is applicable to EMD or any amount deposited by the bidders/successful bidder in respect of sale of secured asset The Purchaser/successful bidder shall bear the (a) applicable stamp duty/registration/transfer charges; (b) all the statutory, non-statutory, conversion, electricity, sewage charges, any dues, cess, fees, taxes, rates, assessment charges etc. owing to any person, association or authority shall be borne by the successful Bidder only.

Sale certificate shall be issued in the prescribed format in favor of successful bidder only. The successful hidder shall have to arrange for registration etc., at his/her/its cost of the sale certificate as per the provisions of prevailing Stamp and Registration Act. The

successful bidder shall bear the charges for conveyance, registration fee, stamp dut, taxes, fee etc. as a poplicable.

In case of sale of property subject to any encumbrances, the successful bidder/purchaser shall deposit money required to discharge the encumbrance including interest

cost, expenses etc. if any to the Authorized officer. In case the date of deposit of EMD & e-Auction date is declared holiday then the date will be automatically extended to the very next working day. In case if the public auction in case are due to repose to Euro de Araction and a seculate notice y in the rate will be automatically extended to the very first working day, in case if the public action is stopped, stayed, postponed or rescheduled or cancelled, a public notice will be put on the notice board of BHFL branch and no personalized/individual communication is this regard will be sent to any of the bidders or otherwise.

The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Web Portal of M/s. 4CLOSURE, https://bankauctions.in and https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices before submitting their bids and taking part in the e-Auction.

EMD of unsuccessful bidders shall be returned on the closure of auction proceedings.

Bidding in the last moment should be avoided in the bidder's own interest as neither the Bajaj Housing Finance Limited nor Service provider will be responsible for any

lapse/failure (Internet failure/power failure etc.). in order to ward-off such contingent situations, bidders are requested to make all necessary arrangements / alternatives such as power supply back-up etc., so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

The Authorized office is not bound to accept the highest offer/bid and the Authorized officer has absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the public auction without assigning any reason thereof.

E- Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 to be held on 27.09.2023 from 11:00 AM - 12:00 AM

Date: 07/09/2023 Place: JAIPUR Authorized Officer (Pardeep Kumar) Bajaj Housing Finance Limited

State Bank of India

SUB-NOTICE U/S 13(2

Azad Chowk, Dist. Banswara (Raj.) E.: sbi.31805@sbi.co.in

**DEMAND NOTICE** OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF

FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 As the Loan Account Become NPA therefore The Bank Authorised Officer Under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction o Financial Assets and enforcement of Security interest ACT 2002 had issued 60 day demand notice to the borrowers as given in the table According to the Notice if the Borrowers does not deposit the Amount within 60 days. The amount will be recovered from Auction of the security as given below. As the demand Notice sent to the borrowers has not been served, copy of demand notice has also been Affixed on the address of borrowers. Therefore the Borrower(s) is informed to deposit the loan amount along with future interest and recover expenses within 60 days, otherwise under the provisions of section 13(4) and 14 of the said Act, the Bank's Authorised Officer is free to take possession of the Security as given below

Loan Account /	Details of Properties/Address of	Date	Amount
Name of the Borrowers / Address	Secured Assets to be Enforced	of Notice	outstanding
A/c No. 61028950048	Part-I: Hypothecated of stock's like:	07.08.2023	Rs.
1. M/s. ENJOY FILL & FLY (Firm) Add:- Indian Oil Petrol Pump,	Petroleum product		<b>39,94</b> ,438/-
Ratlam Road, Banswara (Raj.) 327001, <b>2. Mr. Deepak Jain S/o Late</b> Sh. Basant Lal Jain (legal heir of Pro. Late Sh. Basant lal Jain)			
Add:- Plot No. 13. Bahubali Colony, Banswara (Rai.) 327001, <b>3. Mr.</b>			as on
Draygon Join S/o Late Sh. Becont Let Join (legal heir of Bro. Late	Properties at servay no. 369/2,	21.01.2023	01/08/2023
Sh. Rasant Ial Jain) Add:- Adinath Nagar, Agarnura Road, Rahuhali,	Rishi Kunj, Ratiam Road, Banswara,		with future
IColony Banswara (Bai ) 327001 <b>4. Mrs. Basanti Devi Jain w/n</b>	maj. (Aumeasumy 4520+4460+)		interest and
Late Sh. Basant Lal Jain (legal heir of Pro. Late Sh. Basant Ial	3650=12450 sqπ) in the name of		
Jain) Add: Adinath Nagar, Agarpura Road, Bahubali Colony,	Sh. Basant lal jain S/o Sh. Kumji		incidental
Banswara (Raj.) 327001 5. Mr. Dharnidhar Pandya S/o Sh. Gori			expenses,
Shankar (Guarantor) Add.: 23, Mahi Sarover Yojana Housing Board,			
Banswara (Raj.) 327001 6. Mr. Mayur Jain S/o Sh. Praveen Jain	land, On the North by: Residential		costs
(Guarantor) Add: - Adinath Nagar, Agarpura Road, Bahubali Colony,	House, On the South by: Ratlam		
Banswara (Raj.) 327001, 7. Mrs. Basanti Jain W/o Late. Sh.	Road.		
Basant Lal Jain (Guarantor) Add:- Adinath Nagar, Agarpura Road,			
Bahubali Colony, Banswara (Raj.) 327001 8. Mr. Shikhar Jain S/o			
Sh. Praveen Jain (Guarantor) Add:- Adinath Nagar, Agarpura Road,			
Bahubali Colony, Banswara (Raj.) 327001			

Borrower(s) are further advised that (1) they obtain the above demand notice from the concerned branch office. (2)They should deposit the demand amount in the bank along with the interest payable in the notice period otherwise the further action will be taken in accordance wit the provisions off the said Act. Authorised Officer Date: 07.09.2023 Place: Banswara State Bank of India

# ess recoveries if any, thereafter. The general Public is invited to bid either personally or through duly authorised agent. "

Earnest Date of Borrower/ Notice and O/S Description of Possession Reserve Money o-Borrower Amount men-Price Secured Assets (Physical or Possessio tioned therein Symbolic) Amount Guarantor House No 137, 27.10.2021 and Ranjeet 20.04.2023 Santosh Nagar **Physical** Rs. 36,42,713/-32.31.615/- 3.23.161.50/ jmer Road, Jaipur

Last Date & Details of account in Name & Contact No. of Date & Time of Time of deposit which EMD is to be Incremental Authorised Officer/Nodal eposited through RTGS/ Inspection of Deposit (EMD) of EMD & Bid Officer Document NEFT & IFSC Code Nc. No. 01337000010052 Prospective Nodal Officer: Mr. Ankur Mathur Name: IDBI Bank Ltd. buyers may visit Rs. 10.000/-26.09.2023 508313184, Authorised Officer IFSC Code: IBKL0000013 on their own. Dr. J.P. Parish [9911671815]. Flat No A-116, Nodal Officer: Mr. Ankur A/c. No. 01337000010052 Prospective First Floor, Omega Vinod 19.10.2021 and Mathur, 7508313184 Name: IDBI Bank Ltd. buyers may visit Rs. 10,000/-IFSC Code: IBKL0000013 on their own. Physical Rs.1,99,500/-26.09.2023 Agarwal Village, Muhana, 10.02.2023 19,95,000/-Rs. 16,70,768/-Dr. J.P. Parish [9911671815]. Sanganer, Jaipur "BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE:- The sale shall be subject to the terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. (1) The sale of Secured Assets is on "as

lotice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below mentioned immovable properties/ secured assets are mortgaged/charged to the secured creditor (IDB Bank Ltd.). Whereas under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorised Officers have issued Demand Notice for recover

of sums from the borrowers./guarantors/mortgagors(herein referred to as borrowers) as per details given below against each borrower. Further, in exercise of powers contained in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the respective Authorised Officers have taken physical/ symbolic possession of the under mentioned secured assets. Whereas sale of secured

assets is to be made through Public E-Auction for recovery of the secured debts due to IDBI BANK Ltd. from the Borrowers as per the demand notice plus future interest, costs and charges incurred by the bank theron

**IDBI** Bank Ltd.

Retail Recovery, D-24, Durlabh Niwas,

Prithviraj Road, C-Shceme, Jaipur, Rajasthan.

is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "no recourse basis" for and on behalf of the Secured Creditors viz.: IDBI Bank Ltd. (2) The sale is strictly subject to the terms & conditions given in this advertisement and in the "Bid Document". Bid document can be obtained from any of our offices, on all working days or downloaded from IDBI's website i.e. www.idbi.com and also at www.bankeauctionwizard.com (3 The sale would be on e-auction platform at website www.bankeauctionwizard.com through E-aucion service provider ANTARES SYSTEMS LIMITED, Contact Miss. B M Sushmitha /Marina Jacob 8951944383/9686196751 Landline-080-40482100, sushmitha.b@antaressystems.com/marina.j@antaressystems.com 4) The authorized officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/ cancel the auction at anytime without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. (5) The successful bidder will be required to deposit 25% of the sale price immediately on confirmation of the sale, inclusive of earnest money deposited. The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the AO. In case of failure to deposit the balance ance amount within the prescribed period, the deposited amount shall be forfeited, including earnest money. (6) In case of default in depositing the 25% bid amount immediately or balance 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount already deposited will be forfeited and secured assets will be resold. (7) All statutory dues/ attendant charges/other dues including registration charges, stamp duty, taxes extra shall be borne by the purchaser. For further details and complete Terms and Conditions, please visit www.idbi.com and/or contact the Nodal officers/Authorized Officers mentioned above against each property. STATUTORY 15 / 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) AND 8(6) OF SARFAESI ACT 2002

The borrower/guarantors are hereby notified to pay the sum as me erest and ancillary expenses before the date of e-auction failing which the property will be auctioned/sold and bal ance dues, if any, will be recovered with interest and costs".

Sd/- AUTHORIZED OFFICER, IDBI BANK LTD. Place: Jaipur, Date: 07-09-2023

इस्पात उत्पादन में कार्बन कम करने के लिए टाटा स्टील के

₹ 4.440.9 पिछला बंद भाव ₹ 4,499.1 आज का बंद भाव

## टीसीएस का जेएलआर की डिजिटल इकाई संग करार

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने जेएलआर की डिजिटल इकाई के साथ अगले पांच वर्षों के लिए 80 करोड़ पॉउंड (करीब एक अरब डॉलर) की रणनीतिक साझेदारी की है। इससे लक्जरी कार विनिर्माता को अपने आईटी ढांचे के आधुनिकीकरण में तेजी लाने और नए तकनीक आर्किटेक्चर के निर्माण में मदद मिलेगी, जो इसकी 'रीइमेजिन' रणनीति में

टीसीएस का जेएलआर डिजिटल के साथ एक दशक से भी ज्यादा पुराना संबंध रहा है। इससे इस लक्जरी वाहन विनिर्माता को अपने विकास और नवाचार कार्यक्रम को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।

इस नई साझेदारी के तहत टीसीएस ऐप्लिकेशन विकास और रखरखाव, उद्यम बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सुरक्षा और डेटा सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगी। टीसीएस ने कहा कि मुख्य आईटी परिचालन में बदलाव करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर और काम करने के नए तरीकों को अपनाकर यह ज्यादा चुस्त और व्यापक परिचालन मॉडल में सक्षम होगी। कंपनी ने कहा की आपू-र्तिकर्ताओं के साथ तालमेल और बड़े स्तर की आर्थिक व्यवस्था के जरिये यह साझेदारी अगले पांच वर्षों के दौरान जेएलआर को पर्याप्त बचत प्रदान करेगी। इससे भविष्य में दोबारा निवेश करने के लिए मुक्त नकदी प्रवाह का रास्ता खुलेगा। इस नए अनुबंध के अलावा टीसीएस वैश्विक स्तर पर विभिन्न बाजारों के अनुरूप आधुनिक लक्जरी ग्राहक अनुभव के अपने दृष्टिकोण में मदद के लिए जेएल आर के साथ साझेदारी कर रही है। बीएस

# हल्दीराम अधिग्रहण की खबर से टाटा कंज्यूमर में आई तेजी

देव चटर्जी और शार्लीन डिस्रुजा मुंबई, 6 सितंबर

**-**टा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर बुधवार को 4 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। शेयर में इन खबरों की वजह से तेजी आई, जिनमें कहा गया कि कंपनी हल्दीराम स्नैक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एचएसएफपीएल) में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए उसके प्रवर्तकों के साथ बातचीत शुरू की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 अरब डॉलर के मल्यांकन के हिसाब से जहां टाटा समह इस कंपनी में बडी हिस्सेदारी खरीद रहा है, वहीं बेन 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। टाटा कंज्यूमर का शेयर बीएसई पर 870.90 रुपये पर बंद हुआ।

स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे बयान में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा है कि वह इस अधिग्रहण के लिए बातचीत नहीं कर रही है और उसने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार विभिन्न अवसरों पर विचार किया है। बेन कैपिटल ने भी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है।



हल्दीराम की कंपनियां मौजूदा समय में पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हैं

हल्दीराम समूह ने इसका खंडन किया है। कि उसकी कंपनी बेची जा रही है।

हल्दीराम की कंपनियां मौजदा समय में पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हैं। यह पुनर्गठन नोएडा स्थित हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड (एचएसपीएल) और हल्दीराम फूड्स इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड (एचएफआईपीएल), दोनों के पैकेज्ड फूड व्यवसायों को अलग किए जाने और इन्हें नई कंपनी एचएसएफपीएल में शामिल करने से जुड़ा है। एचएसएफ-पीएल में एचएसपीएल और एचएफआई-

पीएल के मौजुदा शेयरधारकों की 56 प्रतिशत और 44 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

पुनर्गठन के बाद, एचएसएफपीएल के पास हल्दीराम समूह के दिल्ली-एनसीआर और नागपुर स्थित सभी पैकेज्ड फूड्स और रेडी-टू-ईट व्यवसाय मौजद होंगे। इस संबंध में अप्रैल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी मिली थी और यह पुनर्गठन सौदा अगले 12-18 महीने में पुरा होने की संभावना है।

इस साल मार्च में, हल्दीराम के एक अ धिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया था

कि विलय के बाद, नई कंपनी आईपीओ लाने की योजना बनाएगी। हल्दीराम फुड्स के निदेशक अविन अग्रवाल ने कहा था कि इस सेगमेंट में बढती प्रतिस्पर्धा की वजह से दो व्यवसायों का विलय किया

अग्रवाल ने कहा था, सूचीबद्धता को लेकर इस समय हमारे बीच कोई ठोस बातचीत नहीं हो रही है। हम संगठन के भीतर ही आईपीओ पर सोच-विचार कर रहे हैं ताकि वैल्यू का पता लग सके। इसके अलावा हम बाहरी निवेशकों की बात सुनने के लिए तैयार हैं और हम उनके सझावों का भी स्वागत करेंगे।

उन्होंने कहा, हम सिर्फ नकदी के लिए पूंजी जुटाने पर विचार नहीं कर रहे। अगर हम पूंजी जुटाते हैं तो यह विस्तार के लिए होगा।लेकिन अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह आंतरिक संग्रह से हो रहा है। मार्च 2022 में एचएसपीएल का टर्नओवर 5,195 करोड़ रुपये थी जबकि एचएफ-आईपीएल की बिक्री 3,757 करोड़ रुपये थी। एचएसपीएल का शुद्ध लाभ 341 करोड़ रुपये था, वहीं एचएफआईपीएल का 366 करोड रुपये।

# गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ जीएसटी नोटिस रह करने के आदेश पर रोक

नई दिल्ली, 6 सितंबर

सर्वोच्च न्यायालय ने 21,000 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में बेंगलुरु की गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नोटिंस रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस रोक के परिणामस्वरूप जीएसटी विभाग उन अन्य गेमिंग कंपनियों को भी कारण बताओ नोटिस भेज सकता है, जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से रोका हुआ था।

सिंघानिया ऐंड कंपनी के प्रबंध साझेदार रोहित जैन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाए जोन को विभाग निश्चित रूप से अन्य गेमिंग कंपनियों को भी कारण बताओ नोटिस भेजने के अवसर के रूप में उपयोग करेगा।

अदालत ने गेम्सक्राफ्ट को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है और जीएसटी के राजस्व खुफिया निदेशालय को प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति



21,000 करोड़ रुपये की

चंद्रचुड, न्यायमुर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा का पीठ संभवतः तीन सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगा।पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा काफी कुछ है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि चिंता मत कीजिए।तीन सप्ताह में कछ नहीं

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि गेम्सक्राफ्ट सर्विसेज सट्टेबाजी और जुएके अंतर्गत आती है, जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

राणा सुगर्स लिमिटेड सीआईएन : L15322CH1991PLC011537 पंजीकृत कार्यालय : एससीओ 49–50, सेक्टर 8–सी, चंडीगढ़–160009 बसाइट : www.ranasugars.com, ई–मेल : secretarial@ranasugars.com दूरभाष : 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422 31वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एवं बही समापन की सूचना एदतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को अपराह 3.00 बजे. वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजअल संसाधनों (ओएवीएम) माध्यम से, 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों का संचालन करने के लिए आयोजित

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91, उसके अंतर्गत विरचित प्रयोज्य नियमावली साथ पठित तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 42 के अनुपालन अनुसार, कंपनी की सदस्यों की **पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां,** एजीएम के प्रयोजन के लिए **शनिवार 23 सितंबर 2023** से लेकर के शुक्रवार 29 सितंबर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

रजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.ranasugars.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा सेंटल लिमिटेड (इंडिया) (सीडीएसएल) अर्थात् www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिप संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 202 संख्या ०२ / २०२२ दिनांक ५ मर्ड २०२२ और उसके बाद इस संबंध में जारी परिपन्न नवीनतम सामा परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 और भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गत परिपत्र संख सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी. 2021 परिपट्ट संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 एव सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी 2023 के अनुसा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटर्र ातिभागी(गियों) के साथ पंजीकत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्टॉनिक प्रेषण of सितंबर 2023 को पूरा हो चुका है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, कंपनी की वेबसाइट www.ranasugars.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में लेन-देन किये जाने वाले व्यवसाय के विषयों से संबंधित प्रलेख वार्षिक आम बैठक के दौरान कंपनी की वेबसाइट : www.ranasugars/com पर निरीक्षण के लिये

### एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के लिये अनुदेश : कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 व

धारा 108 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनिय 44 के अनुपालन अनुसार, कंपनी सदस्यों को एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों इलेक्टॉनिक संसाधनों से वोट देने के उनके अपने अधिकार का प्रयोग करने की सविधा प्रदान करवे संतुष्ट है। **शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023** (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार भौतिक रूप में या अभौतिक रू शेयर रखने वाले सदस्यगण, https://www.evotingindia.com/ पर सीडीएसएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में या डिपॉजिटरीज द्वा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार साधारण एवं विशेष व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा मतदा हे माध्यम से किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ **मंगलवार 26 सितंबर 2023 को प्रातः 9.00 बजे होगा तथा समा**प गुरुवार 28 सितंबर 2023 को सार्य 5.00 बजे होगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल गुरुवार 28 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिथि एवं समय व बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिया जाता है, तो सदस्य बाद में उसमें संशोधन नहीं कर सकता।

जिन सदस्यों ने इलेक्टॉनिक संसाधनों से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि पहले शेयर प्राप्त किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वोट डालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना देखें।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठव में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया, एजीएम की सूचना के साथ-साथ सीडीएसएल द्वारा सदस्यों प्रेषित ईमेल में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, आप सीडीएसएल की ई—वोटिंग वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। जिन सदस्यों को एजीएग से पहले अथवा एजीएम के दौरान सहायता की आवश्यकता है वे rta@alankit.com ईमेल लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से मतदान करने की सुविध से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्वेसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोर्श मार्ग, लोवर पारेल (पूर्व), मुंबई—400013 को संबोधित की जा सकती या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें ईमेल पतों को पंजीकृत / अद्यतन करने की प्रविधि :

जेन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपने मेल को पंजीकृत/अद्यतन न किया है, उनसे अनरोध है कि वे सदस्य के नाम और पते का उल्लेखन करने वाले हस्ताक्षरित पत्र की प्रति पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति के साथ तजं / संदापजण्बवउ प आरटीए को लिखकर अपने ईमेल पते को अपडेट करें। अभौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पतों को पंजीकृत / अद्यतः करें। ई-मेल पते को पंजीकृत करने से जुड़े किसी भी प्रश्न/कठिनाई की स्थिति मे

सदस्यगण rta@alankit.com पर लिख सकते हैं। एजीएम से जुड़ने की प्रविधि

दिनांक : 06 सितंबर 2023

स्थान : चंडीगढ़

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा www.evotingindia.com सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध है।

कृते राणा सुगर्स लिमिटे हस्ताः / (मधुर बैन सिंह

दूरस्थ ई–मतदान और एजीएम में मतदान से संबंधित मुद्दों और चिंताओं सहित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप उन सदस्यों के लिए अक्सर पृष्ठे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और वेबसाइट पर <u>wwww.evoting.nsdl.com</u> '<mark>डाउनलोड अनुमाग' के तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए ई–मतदान उपयोगकर्ता मैनुअलदेख सकते हैं, जिन्हें एजीएम से पहले वा उसके दौरान सहायता की आवश्यकता होती हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800–1020–990 और 1800 22 44 ठी उप एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, विरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, निर्दिष्ट ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगे।</mark> कंपनी सचिव

दिनांक : 06.09.2023 स्थान : नई दिल्ली

[विनियम-15(1)(ए)/16(3) देखें] ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित की गई है)

स नं.: ओए/994/2023 ईएक्सएच. नं.: 20180 अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) केस नं : ओए/994/2023 नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के अंतर्गत सम्मन एचडीएफसी बैंक बनाम मैसर्स बीबी पोल्ट्री लिमिटेड

(1) मैसर्स बी.बी. पोल्ट्री लिमिटेड सीआईएनः यू01222सीएच1996पीएलसी017634, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन यथावत रूप से गठित एक कंपनी, अपने निदेशकों के जरिए, जिसका पंजीकत कार्यालय एससीओ नं. 1106-1107, सेक्टर-22बी, चंडीगढ़, **और एक पताः** मैसर्स बी.बी. पोल्ट्री लिमिटेड आवास प्राम बगवाला. बरवाला जिला पंचकला. हरियाणा-134201. पलवल. हरियाणा-134201 (2) श्री आदर्श कुमार सहगल पिता श्री हुकुम चंद सहगल आवास मकान नं. 1501, सेक्टर 21, पंचकुला

.\_, 134112 हरियाण (3) श्री दिनेश कुमार सहगल पिता श्री हुकुम चंद सहगल आवास मकान नं. 1501, सेक्टर 21, पंचकुला 34112 हरियाणा

(4) श्रीमति मध सहगल पति श्री आदर्श कमार सहगल आवास मकान नं. 1501, सेक्टर 21, पंचकला . 134112 हरियाणा

चंकि. ओए/994/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के समक्ष दिनांक 30/08/2023 को चुंकि यह माननीय न्यायाधिकरण ऋण की रकम रु. 2,46,89,242,69 की वसुली के लिए आपके

बुक्त चुनानाव न वाताविक्य हैं है। खिलाफ अधिनियम की द्यारा 19(4) (ओए) के अधीन दायर उक्त आवेदन पर सम्मन/सूचना जारी करते हुए संतुष्ट है (आवेदन के साथ दस्तावेज इत्यादि की प्रतिलिपि संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुपालन के तहत आप, प्रतिवादियों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

(i) सम्मन सेवित किए जाने के तीस दिनों के अंदर यह कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों न स्वीकार कर

(ii) मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के अधीन आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अलाव सम्पत्तियों तथा आस्तियों का विवरण प्रकट करें।

(iii) आप पर मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के अधीन प्रकट की गई प्रत्याभूत सम्पत्तियों अथवा इस तरह की अन्य सम्पत्तियों तथा आस्तियों के साथ सीदा करने अथवा उसका निपटान करने पर रोक लगा दी गई है जिसकी सम्पत्तियों की कर्की के लिए आवेदन पर सनवाई तथा निपटान लंबित है।

(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी भी सम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित सृजित की गर्द है तथा (अथवा मूल आवेटन के कमांक 3ए के अधीन निर्दिष्ट अथवा एकट अन्य सम्मिन्यों तथा अस्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रारूप के जरिए हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे, अपने व्यवसाय की साधा कार्यप्रणाली को छोडकर।

बिक्री से प्राप्त रकम का हिसाब रखने तथा संबंधित सम्पत्तियों पर प्रतिभति हित धारण करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते में संबंधित बिक्री रकम जमा करने की जिम्मेदारी आप

आपको लिखित बयान के साथ आवेदक को प्रेषित उसकी प्रतिलिपि भी दायर करने तथा **पंजीयक** के समक्ष **दिनांक 10/01/2024 की सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा दिनांक 05.09.2023 को जारी

सम्मन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी का हस्ता

जेएचएस स्वेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74110HP2004PLC027558 पंजीकृत कार्यालय : त्रिलोकपुर रोड, खेड़ी काला—अंब, तहसील—नाहन जिला : सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

फोन नंबर : 011–26900431 और फैक्स नंबर : 01702–238830

वेबसाइट : www.svendgaard.com ● ईमेल : cs@svendgaard.com

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और दूरस्थ ई-मतदान की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जेएचएस स्वेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन **गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को दोगहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **(ओएबीएम)** के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के

लागू प्रावधानों और कॉपॉस्ट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''एसईबीआई'' द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के साथ पठित नियमों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचाल

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 35 सित्तुंबर, 2023 को उन सुमी सदस्यों को पूरा कर लिया गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटर्र

स्वना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <u>www.svendgaard.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) <u>www.bseindia.com</u> और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) <u>www.nseindia.com</u> क्रमशः पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड की वेबसाइट: https://www.alankit.com/registrar-and-share-transfer-agent पर भी उपलब्ध होंगी।

एजीएम या वार्षिक रिपोर्ट की सूचना में संदर्भित दस्तावेज कंपनी के अनुरोध पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए, cs@svendgaard.com पर इंमेल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

एजीएम में दूरस्थ ई–मतदान और ई–मतदान

एजीएम (''ई—मतदान'') में सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विश्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी सूरमध ई—मतदान की अविधि सोम्बार, 25 सितंबर 2023 (09:00 बजो से शुरू होगी और बुस्वाम, 27 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी हैं। इस अवृधि के दौरान, 21 सितंबर, 2023 की कट—ऑफ़ दिनांक तक मौतिक

ल्प में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम के समय दूररथ ई-मतदान या ई-मतदान द्वारा अपना ग्रेट डाल सकते हैं और एक व्यक्ति जो कट—ऑफ दिनांक को सदस्य नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य से इस सूचना का उपयोग करना चाहिए। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के

वह व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और शेयर रखता है और मतदान करने के लिए पात्र है, एजीएम के सूचना में प्रदान की गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करने की प्रक्रिया का पाूलन कर सकता है। युद्धि ऐसा व्यक्ति पहले से ही मृतदान के लिए एन्डीएसएल

के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि : ए) दरस्थ ई—मतदान प्रणाली को पूर्वोक्त दिनांक और समय के बाद एनडीएसएल द्वारा निष्ठि

कर दिया जाएगा और एक बार संदर्भ द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने व

कर दिया जाएगा आर एक बार संदरस्य द्वारा क्रिसा प्रस्ताव पर वाट डालन क बाद, सदस्य का बाद में इस बदलन क अनुमति नहीं वी जाएगी, बी, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई—मतदान हारा अपना वोट डाला है, वे में एजीएम में मान ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के ह कदार नहीं होंगे; ग) एजीएम में इतेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी: और घ) एक च्यक्ति जिसका माम सदस्यों के रजिस्टर में याक्रेक्त कट—ऑफ दिनांक के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह दूरस्थ ई—मतदान के साथ—साथ एजीएम में मतदान की सुविधा का लाम उठाने का हकदार होगा:

. इस्य, जिनके पास भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई —मेल पते कंपनी/उनके संबंधित निक्षेपागा

नहभागियों के साथ पंजीकत नहीं हैं उनसे अनरोध है कि वे कंपनी को सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म **आईएसआर—** 

कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.svendgaard.com/</u> पर उपलब्ध) जमा करके अपने ई—मेल पते को यथाशीर

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं ।

## स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 🎹 सीआईएन : L20211CH1991PLC011732

पंजीकृत कार्यालय : एससीओ 14 सेक्टर 7 सी मध्य मार्ग चंडीगढ़—160019 ईमेल : cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com

> 32वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोर्टिंग तथा बही समापन जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि : स्टाइलम इंडस्टीज लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिव आम बैठक शनिवार 30 सितंबर, 2023 को प्रातः 10.00 बजे सिप 'एन' डाइन, एससीओ-16ए, मध मार्ग, सेक्टर 7—सी, चंडीगढ में आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी क वार्षिक रिपोर्ट जिसमें उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फॉर्म के साथ एजीएम की सूचना सम्मिलित है कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेज दी गई : जिनके ईमेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं। एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 तथ

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों व अनुपालन अनुसार, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, एजीएम व वार्षिक बर्ह नमापन के उद्देश्यार्थ **24 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023** (दोनों दिवस सम्मिलित

समय—समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 व साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 व विनियमन 44 के निबंधनों के अंतर्गत रिमोट ई—वोटिंग। कंपनी ने अपने सदस्यों को सामान्य ए विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिरं लिंक इनटाइम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना निर्धारितानुसार ई—वोटिंग सुविधा प्रदान की है। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावर्ल के अंतर्गत दिए जाने हेतु अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं :--

1. रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ बधवार 27 सितंबर 2023 को (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) होग तथा समापन शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को (सायं 5.00 बजे आईएसटी) होगा। दिनांक 29 सितंब 2023 को सायं 05.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी 2 एक व्यक्ति जिसका नाम, कट ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2023 के अनुसार, सदस्यों र्क पंजिका में अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका अभिलेखित है, केवल वही व्यक्ति एजीएम में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविध पाप्त करने का अधिकारी होगा।

3. इलेक्टॉनिक वोटिंग इवेंट नंबर (इवन): 230504

सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पूंज उनके अंशों के अनुपात में होंगे।

5. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डाले हैं, उनके लिये एजीएम स्थल मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों से मतदान करता है, तो मतपत्र के माध्यम से किया जानेवाला मतदान अवैध माना जाएगा। 6. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंश प्राप्त करता है तथा सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि के अनुसार अंश धारण करता है, वह सूचना की प्रति तथा वार्षिक रिपोर्ट के लिये कंपनी सचिव को cs@stylam.com पर एक अनुरोध भेज सकता है।

7. एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.stylam.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

8. एक सदस्य, ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, किंतु उसे बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9. एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री संजीव कुमार गोयल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सी.पी. नं. 1248) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मतदान के परिणाम, एजीएम वे समापन के दो दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे।

10. ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतें, **मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुनील** मिश्रा@ Sunil.mishra@linkintime.co.in, दूरभाष सं. 011-49411000 पर लिखकर भेजी जा सकती हैं।

कृते स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : चंडीगढ़ दिनांक : 06 सितंबर, 2023

संजीव कुमार सहगल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

# कर चोरी का मामले भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई

होने वाला है।

## पेप्सिको इंडिया असम में लगाएगी संयंत्र

पेप्सिको इंडिया ने असम के नलबाड़ी में निर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की है।इस नए संयंत्र पर 778 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। करीब 44.2 एकड़ में फैला यह संयंत्र 2025 में चालू होगा और इससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने लेज ब्रांड का उत्पादन मजबूत बनाने के लिए पे प्सिको इंडिया ने असम से 50,000 टन आलू खरीदने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा है कि नए संयंत्र से अगले कुछ वर्षों के दौरान 60,000 टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता के लिए मांग भी पैदा होगी।

### ऐ आई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड रआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 2 वर्ष ( + 1 साल) की अवधि वाली निम्नलिखित निविदा के लेए बोलियां आमंत्रित करता निविदा संदर्भ ईबी/जीएम/आई-33/233 दिनांक 04/09/2023 निविटा विवरण निविदा: मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी परिवहन सेवाओ पति दिन 59 यात्राएँ या 10 314 कि मी पति महीने लगभग आवश्यकता अंतिम तिथि 22-09-2023 प्री-बिड मीटिंग की तारीख 12-09-2023 संबंधित अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट देखें: निविदा दस्तावेजों से https://www.aiesl.in/Tender.aspx

SMFG IndiaCredit प्रमुख में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) पंजीवृत कार्यालय : भेष टाक्प, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पीएव रोड, महुरावोयल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु वेबसाइट : https://www.smfgindia.com

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण। (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट लिमिटेड) **(एसएमआईसीसी**) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बही—खातों पर कतिपय अनुपयोज्य आस्तिय की बिक्री के लिए एआरसीएस/बैंकों/पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और पात्र वित्तीय संस्थाओं र अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करती है। योग्य इच्छुक आवेदक एसएमआईसीसी की वेबसाइ https://www.smfgindia.com/NPA-assets-Sale.aspx से सार्वजनिक नोटिस दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

क्रपया ध्यान दें कि गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों को एसएमआईसीसी के विवेकाधिकार पर संपत्ति/य -व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के पूल के रूप में नीलाम किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष को उचित जांच–पड़ताल शुरू करने ५ लिए एक आशय पत्र **(''एलओआई'')** के साथ गैर प्रकटीकरण समझौते **(''एनडीए'')** प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक **17 सितंबर, 2023 को शाम 6:30 बजे** या उससे पहले रुचि की अभिव्यक्ति **(ईओआई)** जमा करेंगे या तो निम्नलिखित पते पर एसएमआईसीसी को एक सीलबंद लिफाफे में : 6वीं मंजिल बी विं सुप्रीम बिजनेस पार्क, हीरानंदानी पवई मुंबई—400076 या निम्नलिखित आईडी पर ई–मेल द्वारा Yuvaraj.selvaraj@smfgindia.com करेंगे।

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

पटियाला - 147001 (पंजाब)

## आधिपत्य सूचना परिशिष्ट ४ (अचल सपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑप फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा १३ के सब-सेंक्शन (४) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्ये जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

	क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
		(लोन कोड नं. 10200000463/ पटियाला शाखा) सुरेश कुमार (ऋणी) कविता पति सुरेश कुमार (सह-ऋणी) रामभज पिता ओमप्रकाश (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खेवट नं. 479 पर मकान, ब्राम्हण वाला मोहल्ला, विजर नगर रोड़ के पास, वाका बाटा तहसील कलायत, कैथल, हिरयाणा, 136117. चर्तु:सीमा: पूर्व-चेला की कृषि भूमि, पश्चिम- 16-6 कच्चा रास्ता, उत्तर- राहुल पिता जय भगवान का प्लॉट, दक्षिण- कृष्णा का खाली प्लॉट	11-07-2022	04-09-2023
स्थान : हरियाणा प्राधिकृत अधिकार					

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, **पटियाला शाखा:** बों- 17/423, दूसरी मंजिल, सेठी कॉम्पलेक्स, पोलो ग्राउण्ड के पास, मोदी कॉलेज चौक, लोवर माल ,

देनांक : 07-09-2023 आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रति जेएचएस स्वेनगार्ड लेबोरेटरी लिमिटेड